



थाना - खुटार , जनपद - शाहजहाँपुर (उ.प्र.)

निकट पुराना सरकारी अस्पताल पिन कोड- 242405

मो0 9454404211 Email-sho-khutar,sj@up.gov.in

प्रेस नोट

सोशल मीडिया पर दूसरे व्यक्ति के लाइसेंसी शस्त्रो को लेकर फोटो खिचवाकर प्रदर्शन करने पर हुई कार्यवाही

दि0 28/09/21

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहाँपुर श्री एस. आनन्द के कुशल निर्देशन मे पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री संजीव कुमार वाजपेयी एवं क्षेत्राधिकारी पुवायां श्री बी0एस0 वीर कुमार के निकट पर्यवेक्षण मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे दिनांक 27/09/2021 को थाना खुटार पुलिस द्वारा अभियुक्त उत्तम मिश्रा पुत्र श्री विनोद कुमार मिश्रा निवासी मो0 नरायनपुर कस्बा व थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर को अपने ट्वीटर हैंडिल, फेसबुक पर दूसरे के लाइसेंसी शस्त्रो के साथ फोटो खिचवाकर प्रदर्शन करते हुये गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0स0 421/21 धारा 29/30 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

संक्षिप्त विवरण:-

ट्वीटर हैंडिल, फेसबुक व अन्य सोशल साइट पर एक व्यक्ति उत्तम मिश्रा पुत्र श्री विनोद कुमार मिश्रा निवासी मो0 नरायनपुर कस्बा व थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर द्वारा लाइसेंसी शस्त्र लेकर फोटो खिचवाकर प्रदर्शन करने की शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर थाना खुटार पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये उक्त अपराधी उत्तम मिश्रा पुत्र श्री विनोद कुमार मिश्रा निवासी मो0 नरायनपुर कस्बा व थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर को गिरफ्तार किया गया। जिसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। तथा लाइसेंसी धारक दुर्गाप्रसाद, कमल किशोर व राजेश कुमार मिश्रा पुत्रगण श्री सम्पत कुमार मिश्रा निवासी गण ग्राम लखनापुर थाना फरधान जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा आर्म्स एक्ट का उल्लंघन किया गया जिनके विरुद्ध धारा 30 आर्म्स एक्ट की विधिक कार्यवाही की जा रही है।



घटना स्थल:- मोहल्ला नरायनपुर

समय:- 22.30 बजे

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

- ❖ उत्तम मिश्रा पुत्र श्री विनोद कुमार मिश्रा निवासी मो0 नरायनपुर कस्बा व थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण:-

- ❖ उ0नि0 श्री रामानन्द मिश्रा थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर।
- ❖ हे0का0 73 यशपाल सिंह थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर।